



समाचार

सिंहस्थ में निर्बाध बिजली आपूर्ति को सफलतापूर्वक कराने वाले मध्यप्रदेश प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 186 कार्मिक सिंहस्थ सेवा सम्मान एवं पदक से सम्मानित

जबलपुर, 18 अगस्त। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के नयागांव स्थित 220 केवी उपकेन्द्र में प्रबंध संचालक श्री रवि सेठी ने भव्य समारोह में सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े आयोजन सिंहस्थ उज्जैन में कंपनी द्वारा निर्बाध बिजली आपूर्ति की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निर्वाहन हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा प्रदत्त सिंहस्थ सेवा सम्मान एवं पदक से उन कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत से सिंहस्थ आयोजन को सफल बनाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा कंपनी के कुल 186 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सिंहस्थ सेवा सम्मान एवं पदक प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सिंहस्थ महाकुंभ-2016 के अत्यंत सफल आयोजन में परीक्षण व संचार वृत्त उज्जैन एवं अति उच्च दाब-संधारण वृत्त इंदौर द्वारा अनवरत विद्युत प्रदान कर दिए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु ट्राफी प्रदान की गई।

सिंहस्थ में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के डाक्यूमेंटेशन संबंधित, कार्यपालक निदेशक-अति उच्च दाब-संधारण एवं निरीक्षण तथा मुख्य अभियंता-परीक्षण एवं संचार कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी इस अवसर पर किया गया।

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु कंपनी 29 कार्मिकों सर्वश्री घनश्याम माहेश्वरी, एन.पी. गुप्ता, ख्वाजा बतरेज चौधरी, आर.के. गुप्ता, अनुराग पंत, कपिल भार्गव, रावेन्द्र पटेल, आर.पी. गुप्ता, आशीष कुमार जैन, आशुतोष राय, ऋषभ नायक, अरूण कुमार तेलंग, भीमराव वानखेडे, आशीष पाल शाह, ए.के. तिवारी, प्रेमशंकर विश्वकर्मा, कमल कुमार चौरसिया, रामगोपाल त्रिवेदी, एम. तंगावेलू, आर.पी. सिंग, बाबूराम पाल, गिरजा शंकर सूर्यवंशी, धर्मेन्द्र मोरे, रावेन्द्र प्रसाद साहू, रामदयाल महारा, सुनील कुमार पटेल, दिनेश कुमार पाठक एवं महेन्द्र कुमार मिश्रा को उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया।

इस पावन पर्व पर डा. एन. टाटाराव मेमोरियल शील्ड प्रथम स्थान टी.एल.एम. उपसंभाग हरदा को प्रदान की गई। टी.एल.एम. उपसंभाग सिवनी एवं टी.एल.एम. उपसंभाग इटारसी को द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी प्रकार परीक्षण संभाग इटारसी को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्राफी एवं 400 केवी परीक्षण संभाग भोपाल तथा परीक्षण संभाग सागर को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री रवि सेठी ने सभी पुरस्कार प्राप्त कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में उज्जैन में संपन्न प्रतिष्ठित सिंहस्थ में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सभी को बधाई देते हुए इस वर्ष कंपनी द्वारा स्थापित कीर्तिमान एवं उपलब्धियों की चर्चा की तथा आने वाले समय केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रीन एनर्जी कारिडोर स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की प्रस्तावित स्थापना एवं रेवा के निकट निर्माणाधीन सौर ऊर्जा संयंत्र सं संबंधित कार्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भी सभी से अपील की।

कार्यक्रम का संचालन मुख्य अभियंता कार्पोरेट अफेयर्स श्री एस.ए. रिजवी ने तथा आभार प्रदर्शन मुख्य अभियंता परीक्षण एवं संचार श्री डी.सी.जैन ने किया।

समाचार क्रमांक 323/2016

(राकेश पाठक)

वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी